

# Rom

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὧ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων, ἐν ᾧ γὰρ  
इसलिये निरुत्तर है, हे मनुष्य हर वह-जो न्याय-करता-है में जिस क्योंकि  
[G1352](#) [G0379](#) [G1510](#) [G5599](#) [G0444](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2919](#) [G1722](#) [G3739](#) [G1063](#)
- κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις; τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις, ὁ  
न्याय-करता-है थे दूसरे-को अपने-आप-को दोषी-ठहराता-है वे क्योंकि वही करता-है वह-जो  
[G2919](#) [G3588](#) [G2087](#) [G4572](#) [G2632](#) [G3588](#) [G1063](#) [G0846](#) [G4238](#) [G3588](#)
- κρίνων.  
न्याय-करता-है  
[G2919](#)

सो, न्याय करने वाले मेरे मित्र तू चाहे कोई भी है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि जिस बात के लिये तू किसी दूसरे को दोषी मानता है, उसी से तू अपने आपको भी अपराधी सिद्ध करता है क्योंकि तू जिन कर्मों का न्याय करता है उन्हें आप भी करता है।

- 2 οἶδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν, ἐπὶ τοὺς  
जानते-हैं और कि थे न्याय का परमेश्वर है के-अनुसार सत्य पर उन-को  
[G1492](#) [G1161](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2917](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1510](#) [G2596](#) [G0225](#) [G1909](#) [G3588](#)
- τὰ τοιαῦτα πράσσοντας.  
जो ऐसे करते-हैं  
[G3588](#) [G5108](#) [G4238](#)

अब हम यह जानते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें परमेश्वर का उचित दण्ड मिलता है।

- 3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὧ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα  
सोचता-है और यह हे मनुष्य वह-जो न्याय-करता-है उन-का जो ऐसे  
[G3049](#) [G1161](#) [G3778](#) [G5599](#) [G0444](#) [G3588](#) [G2919](#) [G3588](#) [G3588](#) [G5108](#)
- πράσσοντας, καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφύεξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;  
करते-हैं और करता-है उन्हें कि तू बच-जाएगा से-the न्याय के परमेश्वर  
[G4238](#) [G2532](#) [G4160](#) [G0846](#) [G3754](#) [G4771](#) [G1628](#) [G3588](#) [G2917](#) [G3588](#) [G2316](#)

किन्तु हे मेरे मित्र क्या तू सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को अपराधी ठहराता है और अपने आप वैसे ही काम करता है तो क्या तू सोचता है कि तू परमेश्वर के न्याय से बच जायेगा।

- 4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀνοχῆς, καὶ τῆς  
या के धन की भलाई उसकी और की सहनशीलता और की  
[G2228](#) [G3588](#) [G4149](#) [G3588](#) [G5544](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0463](#) [G2532](#) [G3588](#)
- μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ, εἰς  
धीरज तुच्छ-समझता-है न-जानते-हुए कि थे भलाई की परमेश्वर की-और  
[G3115](#) [G2706](#) [G0050](#) [G3754](#) [G3588](#) [G5543](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#)
- μετάνοιαν σε ἄγει?  
पश्चाताप तुझे ले-जाती-है  
[G3341](#) [G4771](#) [G0071](#)

या तू उसके महान अनुग्रह, सहनशक्ति और धैर्य को हीन समझता है? और इस बात की उपेक्षा करता है कि उसकी करुणा तुझे प्रायश्चित्त की तरफ ले जाती है।

- 5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητα σου, καὶ ἀμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις  
 के-अनुसार परन्तु तेरी कठोरता तेरी और न-पश्चाताप-करनेवाले हृदय इकट्ठा-करता-है  
[G2596](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4643](#) [G4771](#) [G2532](#) [G0279](#) [G2588](#) [G2343](#)
- σεαυτῶ ὀργῆν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς, καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ,  
 अपने-लिये क्रोध में दिन क्रोध-के और प्रकाशन धर्मी-न्याय के परमेश्वर  
[G4572](#) [G3709](#) [G1722](#) [G2250](#) [G3709](#) [G2532](#) [G0602](#) [G1341](#) [G3588](#) [G2316](#)

किन्तु अपनी कठोरता और कभी पछतावा नहीं करने वाले मन के कारण उसके क्रोध को अपने लिए उस दिन के वास्ते इकट्ठा कर रहा है जब परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा।

- 6 ὅς ἀποδώσει ἐκάστῳ, κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ:  
 जो देगा हर-एक-को के-अनुसार थे कर्म उसके  
[G3739](#) [G0591](#) [G1538](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2041](#) [G0846](#)

परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा।

- 7 τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν  
 जो तो में धीरज कर्म भले महिमा और आदर और अमरता  
[G3588](#) [G3303](#) [G2596](#) [G5281](#) [G2041](#) [G0018](#) [G1391](#) [G2532](#) [G5092](#) [G2532](#) [G0861](#)

ζητοῦσιν, ζῶην αἰώνιον;  
 खोजते-हैं जीवन अनन्त  
[G2212](#) [G2222](#) [G0166](#)

जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह बदले में अनन्त जीवन देगा।

- 8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ  
 जो परन्तु से स्वार्थ और आज्ञा-नहीं-मानते थे सत्य-को मानते-हैं परन्तु  
[G3588](#) [G1161](#) [G1537](#) [G2052](#) [G2532](#) [G0544](#) [G3588](#) [G0225](#) [G3982](#) [G1161](#)

τῇ ἀδικίᾳ, ὀργῇ καὶ θυμῷ;  
 थे अधर्म-को क्रोध और प्रकोप  
[G3588](#) [G0093](#) [G3709](#) [G2532](#) [G2372](#)

किन्तु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चल कर अधर्म पर चलते हैं उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा।

- 9 θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου  
 क्लेश और संकट पर हर प्राण मनुष्य-के जो करता-है  
[G2347](#) [G2532](#) [G4730](#) [G1909](#) [G3956](#) [G5590](#) [G0444](#) [G3588](#) [G2716](#)

τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον, καὶ Ἑλλήνος;  
 थे बुराई यहूदी-के भी पहले और यूनानी-के  
[G3588](#) [G2556](#) [G2453](#) [G5037](#) [G4412](#) [G2532](#) [G1672](#)

हर उस मनुष्य पर दुःख और संकट आएंगे जो बुराई पर चलता है। पहले यहूदी पर और फिर गैर यहूदी पर।

- 10 δόξα δὲ, καὶ τιμὴ, καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν,  
 महिमा परन्तु और आदर और शान्ति हर-एक-को जो करता-है थे भलाई  
[G1391](#) [G1161](#) [G2532](#) [G5092](#) [G2532](#) [G1515](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2038](#) [G3588](#) [G0018](#)

Ἰουδαίῳ τε πρῶτον, καὶ Ἑλληνι.  
 यहूदी-को भी पहले और यूनानी-को  
[G2453](#) [G5037](#) [G4412](#) [G2532](#) [G1672](#)

और जो कोई अच्छाई पर चलता है उसे महिमा, आदर और शान्ति मिलेगी। पहले यहूदी को और फिर गैर यहूदी को

- 11 οὐ γὰρ ἐστὶν προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ.  
 नहीं क्योंकि है पक्षपात के-पास थे परमेश्वर  
[G3756](#) [G1063](#) [G1510](#) [G4382](#) [G3844](#) [G3588](#) [G2316](#)

क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।

12 Ὅσοι γὰρ ἀνόμωσ ἥμαρτον, ἀνόμωσ καὶ ἀπολοῦνται; καὶ ὅσοι ἐν  
जितने क्योंकि बिना-व्यवस्था पाप-किया बिना-व्यवस्था भी नाश-होंगे और जितनों-ने में  
[G3745](#) [G1063](#) [G0460](#) [G0264](#) [G0460](#) [G2532](#) [G0622](#) [G2532](#) [G3745](#) [G1722](#)

νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται,  
व्यवस्था पाप-किया द्वारा व्यवस्था न्याय-किये-जाएंगे  
[G3551](#) [G0264](#) [G1223](#) [G3551](#) [G2919](#)

जिन्होंने व्यवस्था को पाये बिना पाप किये, वे व्यवस्था से बाहर रहते हुए नष्ट होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था में रहते हुए पाप किये उन्हें व्यवस्था के अनुसार ही दण्ड मिलेगा।

13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ' οἱ ποιηταὶ  
नहीं क्योंकि वे-जो सुननेवाले व्यवस्था-के धर्मी के-पास थे परमेश्वर परन्तु वे-जो करनेवाले  
[G3756](#) [G1063](#) [G3588](#) [G0202](#) [G3551](#) [G1342](#) [G3844](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0235](#) [G3588](#) [G4163](#)

νόμου δικαιοθήσονται.  
व्यवस्था-के धर्मी-ठहराये-जाएंगे  
[G3551](#) [G1344](#)

क्योंकि वे जो केवल व्यवस्था की कथा सुनते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है। बल्कि जो व्यवस्था पर चलते है वे ही धर्मी ठहराये जायेंगे।

14 ὅταν γὰρ ἔθνη, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου  
जब क्योंकि अन्यजाति जिनके-पास नहीं व्यवस्था होती स्वभाव-से वे जो-की व्यवस्था  
[G3752](#) [G1063](#) [G1484](#) [G3588](#) [G3361](#) [G3551](#) [G2192](#) [G5449](#) [G3588](#) [G3588](#) [G3551](#)

ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος,  
करते-हैं ये व्यवस्था न रखते-हुए अपने-आप-में हैं व्यवस्था  
[G4160](#) [G3778](#) [G3551](#) [G3361](#) [G2192](#) [G1438](#) [G1510](#) [G3551](#)

सो जब ग़ैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है तो भी वे अपनी व्यवस्था आप हैं।

15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου, γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις  
जो दिखाते-हैं थे कार्य का व्यवस्था लिखा-हुआ में उनके हृदयों  
[G3748](#) [G1731](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G3551](#) [G1123](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2588](#)

αὐτῶν, συμμαρτυροῦσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων, τῶν  
उनके साथ-गवाही-देती उनकी थे अन्तःकरण और बीच एक-दूसरे-के उनके  
[G0846](#) [G4828](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4893](#) [G2532](#) [G3342](#) [G0240](#) [G3588](#)

λογισμῶν κατηγοροῦντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,  
विचारों दोष-लगाते या भी बचाव-करते  
[G3053](#) [G2723](#) [G2228](#) [G2532](#) [G0626](#)

वे अपने मन पर लिखे हुए, व्यवस्था के कर्मों को दिखाते हैं। उनका विवेक भी इसकी ही साक्षी देता है और उनका मानसिक संघर्ष उन्हें अपराधी बताता है या निर्दोष कहता है।

16 ἐν ᾧ ἡμέρα, ὅτε κρίνει ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων,  
में जिस दिन जब न्याय-करेगा थे परमेश्वर वे गुप्त-बातों की मनुष्यों  
[G1722](#) [G3739](#) [G2250](#) [G3753](#) [G2919](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2927](#) [G3588](#) [G0444](#)

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ.  
के-अनुसार थे सुसमाचार मेरे द्वारा मसीह यीशु  
[G2596](#) [G3588](#) [G2098](#) [G1473](#) [G1223](#) [G5547](#) [G2424](#)

ये बातें उस दिन होंगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का, जिसका मैं उपदेश देता हूँ उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा।

- 17 Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι  
 यदि परन्तु तू यहूदी कहलाता-है और निर्भर-करता-है व्यवस्था-पर और घमण्ड-करता-है  
[G1487](#) [G1161](#) [G4771](#) [G2453](#) [G2028](#) [G2532](#) [G1879](#) [G3551](#) [G2532](#) [G2744](#)

ἐν Θεῷ;  
 में परमेश्वर  
[G1722](#) [G2316](#)

किन्तु यदि तू अपने आप को यहूदी कहता है और व्यवस्था में तेरा विश्वास है और अपने परमेश्वर का तुझे अभिमान है

- 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος  
 और जानता-है थे इच्छा और परखता-है वे उत्तम-बातें सिखाया-गया  
[G2532](#) [G1097](#) [G3588](#) [G2307](#) [G2532](#) [G1381](#) [G3588](#) [G1308](#) [G2727](#)

ἐκ τοῦ νόμου;  
 से थे व्यवस्था  
[G1537](#) [G3588](#) [G3551](#)

और तू उसकी इच्छा को जानता है और उत्तम बातों को ग्रहण करता है, क्योंकि व्यवस्था से तुझे सिखाया गया है,

- 19 πάποιθιάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι, τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκοτει,  
 भरोसा-रखता-है भी अपने-आप-को मार्गदर्शक होने-का अंधों-का ज्योति उनके-लिये-जो में अन्धकार  
[G3982](#) [G5037](#) [G4572](#) [G3595](#) [G1510](#) [G5185](#) [G5457](#) [G3588](#) [G1722](#) [G4655](#)

तू यह मानता है कि तू अंधों का अगुआ है, जो अंधे में भटक रहे हैं उनके लिये तू प्रकाश है,

- 20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μὀρφωσιν τῆς γνώσεως  
 सिखानेवाला मूर्खों-का शिक्षक बालकों-का रखता-है थे रूप के ज्ञान  
[G3810](#) [G0878](#) [G1320](#) [G3516](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3446](#) [G3588](#) [G1108](#)

καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ--  
 और के सत्य में थे व्यवस्था  
[G2532](#) [G3588](#) [G0225](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3551](#)

अबोध लोगों को सिखाने वाला है, बच्चों का उपदेशक है क्योंकि व्यवस्था में तुझे साक्षात् ज्ञान और सत्य ठोस रूप में प्राप्त है,

- 21 ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις? ὁ κηρύσσων, μὴ  
 जो तो सिखाता-है दूसरे-को अपने-आप-को नहीं सिखाता-है जो प्रचार-करता-है न  
[G3588](#) [G3767](#) [G1321](#) [G2087](#) [G4572](#) [G3756](#) [G1321](#) [G3588](#) [G2784](#) [G3361](#)

κλέπτειν, κλέπτεις?  
 चोरी-करना चोरी-करता-है  
[G2813](#) [G2813](#)

तो तू जो औरों को सिखाता है, अपने को क्यों नहीं सिखाता। तू जो चोरी नहीं करने का उपदेश देता है, स्वयं चोरी क्यों करता है?

- 22 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν, μοιχεύεις? ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἶδωλα,  
 जो कहता-है न व्यभिचार-करना व्यभिचार-करता-है जो घृणा-करता-है थे मूर्तियों-से  
[G3588](#) [G3004](#) [G3361](#) [G3431](#) [G3431](#) [G3588](#) [G0948](#) [G3588](#) [G1497](#)

ἱεροσυλεῖς?  
 मन्दिर-लूटता-है  
[G2416](#)

तू जो कहता है व्यभिचार नहीं करना चाहिये, स्वयं व्यभिचार क्यों करता है? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है मन्दिरों का धन क्यों छीनता है?

- 23 ὁς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου, τὸν Θεὸν  
 जो में व्यवस्था घमण्ड-करता-है द्वारा थे उल्लंघन के व्यवस्था थे परमेश्वर-का  
[G3739](#) [G1722](#) [G3551](#) [G2744](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3847](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G2316](#)

ἀτιμάζεις?  
 अपमान-करता-है  
[G0818](#)

| तू जो व्यवस्था का अभिमानी है, व्यवस्था को तोड़ कर परमेश्वर का निरादर क्यों करता है?

- 24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν,  
 थे क्योंकि नाम का परमेश्वर तुम्हारे-कारण द्वारा निन्दा-किया-जाता-है में थे अन्यजातियों  
[G3588](#) [G1063](#) [G3686](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1223](#) [G4771](#) [G0987](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1484](#)

καθὼς γέγραπται.  
 जैसा लिखा-है  
[G2531](#) [G1125](#)

| "तुम्हारे कारण ही ग़ैर यहूदियों में परमेश्वर के नाम का अपमान होता है?" जैसा कि शास्त्र में लिखा है।

- 25 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφέλει, ἐὰν νόμον πράσσης; ἐὰν δὲ παραβάτης  
 खतना तो क्योंकि लाभदायक-है यदि व्यवस्था मानता-है यदि परन्तु अपराधी  
[G4061](#) [G3303](#) [G1063](#) [G5623](#) [G1437](#) [G3551](#) [G4238](#) [G1437](#) [G1161](#) [G3848](#)

νόμου ἴς, ἢ περιτομὴ σου, ἀκροβυστία γέγονεν.  
 व्यवस्था-का हो तेरा खतना तेरा खतनारहित हो-गया  
[G3551](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4061](#) [G4771](#) [G0203](#) [G1096](#)

| यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तभी खतने का महत्व है पर यदि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना रहित होने के समान ठहरा।

- 26 ἐὰν οὖν ἢ ἀκροβυστία, τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσει, οὐχ  
 यदि तो थे खतनारहित वे विधियाँ की व्यवस्था माने क्या-नहीं  
[G1437](#) [G3767](#) [G3588](#) [G0203](#) [G3588](#) [G1345](#) [G3588](#) [G3551](#) [G5442](#) [G3756](#)

ἢ ἀκροβυστία αὐτοῦ, εἰς περιτομὴν λογισθήσεται?  
 उसका खतनारहित-होना उसका में खतना गिना-जाएगा  
[G3588](#) [G0203](#) [G0846](#) [G1519](#) [G4061](#) [G3049](#)

| यदि किसी का खतना नहीं हुआ है और वह व्यवस्था के पवित्र नियमों पर चलता है तो क्या उसके खतना रहित होने को भी खतना न गिना जाये?

- 27 καὶ κρινεῖ ἢ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον, τελοῦσα, σὲ  
 और न्याय-करेगी थे से स्वभाव खतनारहित थे व्यवस्था पूरी-करती-हुई तुझ-को  
[G2532](#) [G2919](#) [G3588](#) [G1537](#) [G5449](#) [G0203](#) [G3588](#) [G3551](#) [G5055](#) [G4771](#)

τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς, παραβάτην νόμου?  
 जो द्वारा लेख और खतना अपराधी व्यवस्था-का  
[G3588](#) [G1223](#) [G1121](#) [G2532](#) [G4061](#) [G3848](#) [G3551](#)

| वह मनुष्य जिसका शरीर से खतना नहीं हुआ है और जो व्यवस्था का पालन करता है, तुझे अपराधी ठहरायेगा। जिसके पास लिखित व्यवस्था का विधान है, और जिसका खतना भी हुआ है, और जो व्यवस्था को तोड़ता है,

- 28 οὐ γὰρ ὁ ἐν, τῷ φανερωῷ Ἰουδαῖός ἐστιν; οὐδὲ ἢ ἐν, τῷ  
 नहीं क्योंकि जो में थे प्रकट यहूदी है न-ही जो में थे  
[G3756](#) [G1063](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5318](#) [G2453](#) [G1510](#) [G3761](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#)

φανερωῷ ἐν σαρκὶ περιτομῆς;  
 प्रकट में शरीर खतना  
[G5318](#) [G1722](#) [G4561](#) [G4061](#)

| जो बाहर से ही यहूदी है, वह वास्तव में यहूदी नहीं है। शरीर का खतना वास्तव में खतना नहीं है।

29	ἀλλ'	ὁ	ἐν	τῷ	κρυπτῷ	Ἰουδαῖος;	καὶ	περιτομή	καρδίας,	ἐν	
	परन्तु	जो	में	थे	गुप्त	यहूदी	और	खतना	हृदय-का	में	
	<a href="#">G0235</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2927</a>	<a href="#">G2453</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G4061</a>	<a href="#">G2588</a>	<a href="#">G1722</a>	
	πνεύματι,	οὐ	γράμματι;	οἷ	ὁ	ἔπαινος	οὐκ	ἐξ	ἀνθρώπων,	ἀλλ'	ἐκ
	आत्मा	न	लेख	जिसकी	थे	प्रशंसा	नहीं	से	मनुष्यों	परन्तु	से
	<a href="#">G4151</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G1121</a>	<a href="#">G3739</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1868</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G0444</a>	<a href="#">G0235</a>	<a href="#">G1537</a>
	τοῦ	Θεοῦ.									
	थे	परमेश्वर									
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>									

सच्चा यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। सच्चा खतना आत्मा द्वारा मन का खतना है, न कि लिखित व्यवस्था का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से की जाती है।